

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 1981/चैत्र 3, 1903
No. 121] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 1981/CHAITRA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1981

का. आ. 211(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)
की धारा 67 के उपबन्धों के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य
सभा में छुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम है, सर्वसाधारण
की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

मान्य प्रवेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए
निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 2 के उप-नियम (1) के
साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की

उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि,—

श्री टी. चन्द्रशेखर रेड्डि,

म. नं. 6-3-898,

सोमजी गूडा, हैदराबाद ।

उस सदन में श्री टी. अंजैया के त्याग-पत्र देने से रिक्त हुए स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं ।

एसेम्बली बिल्डिंग्स,

पब्लिक गार्डन,

हैदराबाद ।

तारीख : 20 मार्च, 1981

ह./-

ई. सदाशिव रेड्डि, रिटर्निंग ऑफिसर ।
[सं. फा. सं. 13(1)/81-विधा.-2-(3)]

ए. के. श्रीनिवासमूर्ति, मंत्र्युक्त सचिव और विधायी मामलों

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1981

S.O. 211(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information :—

DECLARATION

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Andhra Pradesh.

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951 (read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sri T. Chandrasekara Reddy, H. No. 6-3-898, Somajiguda, Hyderabad, has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sri T. Anjiah.

Assembly Buildings, Public Gardens, Hyderabad.

Dated : 20th March, 1981.

Sd/-

E. SADASIVA REDDY, Returning Officer

[No. F. 13(1)/81-Leg D-(iii)]

A. K. SRINIVASAMURTHY, Jr Secy.